



सराहनीय कार्य, जनपद –जालौन

दिनांक – 22.03.2023

थाना जालौन पुलिस व एस0ओ0जी की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 11/23, 12/23 धारा 457 /380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.01.2023 की रात्रि में थाना कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत कस्बा जालौन में सर्राफा मार्केट की 02 दुकानों से चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी । जिसके संबन्ध में तत्काल थाना जालौन पर अभियोग पंजीकृत किये गये थे । आज दिनांक 22.03.2023 को थाना कोतवाली जालौन पुलिस एवं एस0ओ0जी0 /सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 22.03.23 को सारंगपुर तिराहा के पास कस्बा जालौन से अभियुक्त सुरत बहादुर शाही पुत्र नर बहादुर शाही नि0 ग्राम लामकी थाना मातीपुर जिला कैलाली नेपाल को दोनों अभियोगों के चोरी गये जेवरात सफेद धातु (चांदी) कुल वजन 01 कि0ग्रा0 मय 2300 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्त सुरत बहादुर शाही द्वारा बताया गया है कि मेरा जानने वाला नेपाल का ही उद्दीप बहादुर शाही जो सर्राफा मार्केट कस्बा व थाना जालौन में चौकीदारी करते थे जिसने मेरे अलावा 02 अन्य लोगों को चोरी करने के लिये बुलाया था । हम सभी लोग उसी के पास किराये के मकान में रूके थे तथा उसी दिन हम लोगों ने सर्राफा मार्केट की दुकानों की रेकी कर थी तथा रात्रि में मौका पाकर सर्राफा मार्केट की 02 दुकानों से चोरी की घटना कारित कर गन्तव्यों को चले गये थे । हम लोगों ने चोरी किये गये माल को आपस में मिलकर बांट लिया था । अन्य 02 लोगों को मैं नाम व पता के बारे में जानकारी नहीं है उक्त दोनों लोगों को उद्दीप बहादुर ने ही बुलाया था ।

बरामदगी का विवरण -

- 1.मु0अ0सं0 11/23 से सम्बन्धित चोरी के चांदी के जेवरात वजनी 627 ग्राम 200 मिली ग्राम
- 2.मु0अ0सं0 12/23 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित चोरी के जेवरात वजनी 381 ग्राम 650 मिलीग्राम । (कुल बरामदगी 01 किलो ग्राम सफेद धातु चांदी) व 2300 रूपये नगद ।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 11/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना जालौन
- 2.मु0अ0सं0 12/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना जालौन

गिरफ्तार अभियुक्तगण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों एवं अन्य प्रान्तों से की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त-

1. सुरत बहादुर शाही पुत्र नर बहादुर शाही नि0 ग्राम लामकी थाना मातीपुर जिला कैलाली नेपाल उम्र करीब 41 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जालौन मय पुलिस टीम ।
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम ।